

#### JTEKT INDIA LIMITED

19th July, 2024

The BSE Limited

Department of Corporate Services Floor 1, New Trading Ring Rotunda Building. P.J. Towers Dalal Street, Fort Mumbai 400 001. Scrip Code - 520057 National Stock Exchange of India Ltd.

Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C/1, G Block Bandra – Kurla Complex Bandra (E) Mumbai 400 051.

Symbol - JTEKTINDIA; Series - EQ

Sub: Intimation of Newspaper Advertisement in respect of Notice of 40<sup>th</sup> Annual General Meeting and information on E-voting.

Dear Sirs,

This is to inform that pursuant to the provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith, copies of the Newspaper Advertisements in respect of Notice of 40<sup>th</sup> Annual General Meeting and information on E-voting, published in 'Business Standard (English – All Edition and Hindi - Delhi Edition)'.

You are requested to please take the same on record.

The same will also be available on the website of the Company at http://www.jtekt.co.in/.

Thanking you,

Yours faithfully, For **JTEKT India Limited** 



Saurabh Agrawal Company Secretary

CIN: L29113DL1984PLC018415, Website: www.jtekt.co.in Email: investorgrievance@jtekt.co.in

Works: 38/6, Delhi-Jaipur Road, NH-48. Gurugram – 122 001, Haryana, India. Tel: +91 124 468 5000



# THE BIG DEBATE

Is shrinking of the informal sector an indicator of formalisation of

SHIVA RAJORA & ASIT RANJAN MISHRA New Delhi, 18 July

avaged by the Covid-19 pandemic, Dhammu (38) is struggling to bring back to life his tarpaulin-clad makeshift shanty-cumchemical production unit in Mundka, a dusty industrial pocket in West Delhi.

"It has been more than two years since the pandemic got over, but my business is yet to pick up pace. I started working here morethan a decade ago after my father passed away. I don't see any increase in my income. I even had to ask two of my helpers to leave last year. It's only me now,

who takes care of the whole thing," says Dhammu.

millions of microentrepreneurs who own small enterprises and employ workers in the vast informal sector, which had to face a spate of economic shocks in the recent past. The recently released Annual Survey of Unincorporated Sector Enterprises (ASUSE) by the Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI) for the period October 2022-September 2023 paints a

sombre picture of the employment situation in the non-farm informal sector. In the Indian context, the

**JTEKT** 

JTEKT INDIA LIMITED

(CIN - L29113DL1984PLC018415)

Regd. Office: UGF-6, Indraprakash, 21, Barakhamba Road, New Delhi 110001. Tel.: 011-23311924, 23327205

NOTICE OF 40TH ANNUAL GENERAL MEETING ('AGM' TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCE ('VC') / OTHER AUDIO VISUAL MEANS ('OAVM') AND INFORMATION ON E-VOTING

The 40th Annual General Meeting (AGM) of the Members of JTEKT India Limited ('the Company') will be held on Tuesday, 13th August, 2024 at 11.30 a.m. (IST) through Video Conference / Other Audio Visual Means (VC/OAVM). In compliance with Circular dated 25th September, 2023, 28th December, 2022, 5th May, 2022, 14th December, 2021 read with Circulars dated 13th January, 2021, 5th May, 2020, 8th April, 2020 and 13th April, 2020 and other applicable Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs and Circulars dated 7th October, 2023, 5th January, 2023, 13th May, 2022 read with 15th January, 2021 and 12th May, 2020 of Securities and Exchange Board of India, the Companies are allowed to hold the AGM through VC/OAVM, without the physical presence of members at a common venue. Hence, the AGM of the Company is being held through VC/OAVM to transact the business as set forth in the Notice of the 40th AGM dated 30th May, 2024. Shareholders

participating through VC/OAVM shall be reckoned for the purpose of quorum under

In compliance with the said Circulars, electronic copies of the Notice of the AGM and Annual Report, have been sent to all the Members on 18th July 2024, whose e-mail

addresses are registered with the Company / Depository Participant(s). These

documents are also available on the website of the Company at www.jtekt.co.in,

website of Stock Exchanges, i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and National

Stock Exchange of India Limited (NSE) at www.nseindia.com respectively and on

the website of Company's Registrar and Transfer Agent, KFin Technologies Limited

The Company is providing to the members, facility to exercise their right to vote on

resolutions proposed to be passed at AGM by electronic means ('remote evoting") and Insta-Poll. The Company has engaged the services of KFinTech as

the authorized agency to provide remote e-voting facility. Members are requested

The facility for voting through electronic means will also be made available at the AGM ('Insta-Poll') and only those members, who are present in the AGM and have

not cast their vote on the resolutions through remote e-voting and are otherwise

Information and instructions including the details of user id and password relating

to e-voting have been sent to the members through e-mail. The same logging

The business as set out in the Notice of AGM may be transacted through remote

Date and time of commencement of remote e-voting - Saturday, 10th August,

Date and time of end of remote e-voting - Monday, 12th August, 2024

The remote e-voting shall not be allowed beyond 12th August, 2024 (5.00 p.m.-IST).

A person, whose name appears in the Register of Members / Beneficial Owners

as on the cut-off date i.e. 6th August, 2024 shall only be entitled to avail the

facility of remote e-voting or participation at AGM and voting through Insta-Poll.

The voting rights of shareholder shall be in proportion to the equity shares held by

A person who becomes member of the Company after dispatch of the notice of the meeting and holding shares as on the cut-off date, may obtain the user ID and

password by following the detailed procedure as provided in the notice of AGM

The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the meeting

11) In case of any query regarding e-voting or technical assistance for

VC participation, Shareholders may contact KFinTech at the toll-free No. 1-800-3094-001 or write to them at einward.ris@kfintech.com or visit the FAQs section

available at KFin Tech's website <a href="https://evoting.kfintech.com/public/FAQ.aspx">https://evoting.kfintech.com/public/FAQ.aspx</a>.

Members may also contact Mr. Rajeev Kumar, KFin Technologies Limited, at

For JTEKT India Limited

Saurabh Agrawal

Company Secretary ACS: 36163

Section 103 of the Companies Act, 2013.

("KFinTech") at https://evoting.kfintech.com.

The details of the remote e-voting are as under

them in the paid-up equity share capital of the Company.

040-6716 1524 for any further clarifications.

Place: Gurugram

which is available on Company's website and KFinTech's website

may attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again

e-voting and Insta-Poll.

2024 (9.00 a.m.-IST)

(5.00 p.m.- IST)

to click on https://evoting.kfintech.com for casting the vote

not barred from doing so, will be eligible to vote during the AGM.

credentials should be used for attending the AGM through VC/OAVM.

unincorporated/informal sector is important because of the large number of establishments in this sector and the magnitude of employment it provides to unskilled, semi-skilled, and skilled people, besides its sizable contribution to the gross domestic product (GDP) of the country. Enterprises in this sector include businesses which are not incorporated under the Companies Act, 2013.

A comparison of the latest ASUSE 2022-23 report with the results of the 73rd round of the National looked at the

Agriculture Note: GVA refers to gross value added StateBankofIndia(SBI) using the ASUSE data concluded that India has formalised₹26 trillion of its economy during the seven-

year period between FY16 and FY23. Assuming manufacturing as a proxy for industry gross value added (GVA) and trade and other services sectors for services GVA, the report said the size of total informal economy declined to 23.7 per cent in FY23 as compared to 25.9 per cent in FY16.

**DECLINING TREND** 

"Rural establishments, apart from embracing higher growth, also witnessed robust growth in GVA (2.7 times against 2.3 times for urban establishments) with traction coming from a rise in contribution from other services. Further, rural establishments have exhibited a rapid pace of increase from GVAper establishment contribution with larger increases in all the three sectors manufacturing, trade & other services vis-à-vis urban counterparts," the report added.

However, PC Mohanan, former acting chairman,

### MIXED BAG

**Total informal sector GVA** 

FY16 FY22 FY23 (₹ trillion)

10.6

25.9 24.3 23.7

informal 32.6 52.6 58.4

Share of informal GVA to total GVA

Services

National Statistical

report regarding the

that the share of

Commission, says that the

formalisation are not correct,

as the GDP data and labour

force survey data also show

manufacturing has been

fluctuating, with people

going back to agriculture.

"The latest report only

shows that the services sector

hastosome extent been able

to come out from the impact

Manufacturing and trading

sectors still remain affected.

quite large," Mohanan adds.

Sectoral analysis of the

datashowed unincorporated

2022-2023 declined nearly 9.3

enterprises operating in the

manufacturing sector in

percent to 17.82 million.

Similarly, the number of

nearly 15 per cent to 30.6

the number of

businessstandard 💢 bsindia 🧭 business.standard

million during this period.

In the "trading" sector,

establishments declined by 2

workers engaged by these

establishments declined by

Juxtaposing it with other

datasets shows that the informal sector still remains

of successive shocks in the

last seven-eight years.

claims made by SBI in its

Informal industry

■ FY16 ■ FY22 ■ FY23

Industry



per cent to 22.5 million, even as the number of workers engaged in the sector saw a marginal growth to 39 million from 38.7 million during this time period. Establishments in the "other services" sector grew by nearly 19 per cent to 24.64 million and the number of workers engaged surged by 9.5 percent to 39.96 million.

#### **Shocks to the economy**

Pronab Sen, chairperson, Standing Committee on Statistics, says the unincorporated sectorwas severely hit by the successive economic shocks in the past decade or so. These include demonetisation, goods & services tax (GST) and Covid, which is reflected in the decline in the number of

people employed. "Usually, the number of unincorporated enterprises grows by close to 2 million annually. Had the sector not faced these shocks, the total number of such enterprises would have been close to 75 million now. In effect, close to 10 million enterprises were lost. Given that an establishment provides employment to around 2.5-3 people, close to 25-30 million jobs were lost in the process,' headds.

GC Manna, professor at the Institute for Human Development, says there are two things at play, one is that the labour intensity of unincorporated enterprises has been going down and it has been observed for quite sometime now. "The rise in the establishments is partially due to the increase in the number of own

account enterprises, each of which only employs a single person. Second, the reverse migration that happened during the pandemic and resulted in an increase of workers in agriculture, thus reversing the decade-old trend of people moving out of farming, has not been arrested yet," he adds. The International Labour

Organisation (ILO) in its latest India Employment Report said the slow transition to non-farm employment has reversed. "One of the most significant features of the Indian labour market is a slow and steady transition of the workforce away from agriculture and into the nonfarm sectors. The share of manufacturing employment was stagnant, at around 12-14 per cent. The increase in non-farm employment was absorbed by construction and services. After 2019, this slow transition reversed due to the pandemic, with a rise in the share of agricultural employment as well as an increase in the absolute size of the agricultural workforce," the report said.

The share of the primary sector in total GVA increased from 14.8 per cent to 15.6 per cent, while the share of employment in agriculture rose from 42.4 percent in 2019 to 46.4 per cent in 2021 and then fell marginally to 45.4 per cent in 2022. "There was a corresponding decline in the share of the non-farm sector except for construction and trade, hotels and restaurants," the report added.

business-standard.com

the unincorporated economy, or its growing hardship?

#### The informal economy

Dhammu is among the These units may operate without a fixed location, or from homes, small shops or workshops.

Sample Survey (NSS), which

unincorporated sector enterprises during July 2015-June 2016 period, showed that the total workforce in the unincorporated enterprises declined by 1.7 million to 109.6 million during the seven year period even though the total number of establishments rose by 1.6 million to 65.04 million

#### Result of formalisation?

during the same time span.

The ASUSE report has led to a debate among economists whether the shrinking informal economy means that the Indian economy is formalising, or it reflects the direstate of the unorganised sector for which data is rarely available.

A recent report by the

SHARE DEPARTMENT, BOARD & CO-ORDINATION DIVISION PLOT No. 4, DWARKA SECTOR-10, NEW DELHI-110075 Email Id: hosd@pnb.co.in, Tel # 011-28044857

#### PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that Share Certificates of the Bank mentioned below have been reported lost/misplaced/stolen and the registered holders thereof / claimants thereto have requested for issue of

duplicate share certificates.					
Sr.	Name of	Folio	Share	Distinctive	No. of
No.	Shareholder	No.	Certificate		Shares
			No.	Shares	
1.	Sahasradal	0122030	7817	6561491-	500
	Bhattacharjee			6561990	
	Tapasi				
	Bhattacharjee				
	(Jt. Holder-1)				
2.	Shyam	1062238	13363	6737973430-	115
	Khandelwal			6737973544	

In case any person has any claim in respect of the said shares / any objection(s) for the issuance of duplicate certificate(s) in favour of the above stated shareholder(s) / claimant(s), he/she/they should lodge their claim or objection within 15 days of the date of publication of this Notice. If within 15 days from the date hereof no claim is received by the Bank in respect of the said certificate(s), duplicate share certificate(s)/letter(s) of confirmation will be issued. The public is hereby cautioned against dealing in any way with the above mentioned certificate(s).

For Punjab National Bank

Date: 18.07.2024 Place: New Delh

(Ekta Pasricha) Company Secretary

# Greenply

#### **GREENPLY INDUSTRIES LIMITED**

CIN: L20211WB1990PLC268743 Registered Office: "Madgul Lounge" 6th Floor, 23 Chetla Central Road, Kolkata - 700 027 Phone: (033) 3051-5000 Email: investors@greenply.com Website: www.greenply.com

#### NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING AND RECORD DATE

NOTICE is hereby given that the 34th Annual General Meeting of the members of Greenply Industries Limited will be held on Monday 30th September, 2024 at 10:30 a.m., Indian Standard Time ("IST") through Video Conferencing / Other Audio Visual Means ("VC / OAVM") The Notice setting out the businesses to be transacted at the said meeting and Annual Report of the Company for the year ended 31st March, 2024 will be sent separately to the members of the Company in due course.

NOTICE is also hereby given pursuant to Regulation 42 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and applicable provisions of Companies Act, 2013 read with rules made therein, that the Company has fixed Monday, August 05, 2024 as record date for determining the name of Members of the Company eligible for final dividend for the financial year ended 31st March, 2024, if approved by the Member at the said Annual General Meeting of the Company.

The aforesaid intimation may be accessed on the website of the Company viz. www.greenply.com/investors and the websites of the Stock Exchanges where the Company's equity shares are listed viz. BSE Limited (www.bseindia.com) and the National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com).

For Greenply Industries Limited

Place : Kolkata Date: 18.07.2024

Kaushal Kumar Agarwa Company Secretary & Vice President-Legal

## Grow your business with Business Standard the smart choice to reach those who matter! **How to** 71% readers in NCCS A1 and A2 Meet 13 English, 6 Hindi editions: 1000+ towns 6 lakh registered users, 12 million unique visitors per month **Decision** Print readers spend >15 min per day, digital >5 min per visit **Makers** The most-read business medium in top B-Schools without an 150+ events every year **Appointment** Write to sales@bsmail.in now, for a customised solution to your business requirements

महंगाई के खिलाफ

**आरबीआई** की रिपोर्ट में कहा

गया है कि कीमतों में सकारात्मक

तेजी अनुकूल बेस इफेक्ट से

अधिक होने के कारण मुद्रास्फीति

को बल मिला। जून मुख्य

मद्रास्फीति 3.1 फीसदी पर

रिपोर्ट में कहा गया है,

अपस्फीति असमान रही है और

रिपोर्ट के अनुसार, ऐसा कहा

जाता है कि खाद्य मूल्य के झटके

क्षणिक होते हैं, लेकिन वह पिछले

एक साल के वास्तविक अनुभव से

मेल नहीं खाता है।

अभी खत्म नहीं

हुई लड़ाई

पृष्ठ १ का शेष...

## JT<del>E</del>KT

#### जेटेक्ट इंडिया लिमिटेड

(CIN - L29113DL1984PLC018415) युजीएफ-6, इन्द्रप्रकाश, 21, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली -110001

फोन नंबर : 011-23311924, 23327205

ई-मेल: investorgrievance@jtekt.co.in; वेबसाइट: www.jtekt.co.in

वीडियो कॉन्फ्रेंस ('वीसी')/अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स ('ओएवीएम') के माध्यम से आयोजनार्थ निर्धारित 40वीं वार्षिक सामान्य बैठक ('एजीएम') की सूचना और ई-वोटिंग के विषय में सूचना

 जेटेक्ट इंडिया लिमिटेड ("कम्पनी") के सदस्यों की 40वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम मंगलवार, 13 अगस्त, 2024 को पूर्वा. 11.30 बजे (आईएसटी) वीडियो कॉन्फ्रेंस/अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स (वीसी/ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की जाएगी। कार्पोरेट भाजात्य (एमसीए) द्वारा जारी सर्कुलर दिनांकित 25 सितम्बर, 2023, 28 दिसम्बर, 2022, 5 मई, 2022, 14 दिसम्बर, 2021 के साथ पठित सर्कुलर दिनांकित 13 जनवरी, 2021, 5 मई, 2020, 8 अप्रैल, 2020 तथा 13 अप्रैल, 2020 तथा सर्कुलर दिनांकित 7 अक्टूबर, 2023, 5 जनवरी, 2023, 13 मई, 2022 के साथ पठित 15 जनवरी, 2021 तथा 12 मई, 2020, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के अनुपालन में कम्पनियों को एजीएम का आयोजन किसी एक स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बगैर वीसी /ओएवीएम के माध्यम से करने की अनुमति दी गई है। अतः, कम्पनी की एजीएम वीसी / ओएवीएम के माध्यम से 40वीं एजीएम सूचना दिनांकित 30 मई, 2024 में सूचीबद्ध व्यवसायों के निष्पादन हेतु आयोजित की जा रही है। वीसी /ओएवीएम के माध्यम से भाग ले रहे शेयरधारको की गणना कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत गणपूर्ति के प्रयोजनार्थ की जाएगी।

उपरोक्त सर्कुलर्स के अनुपालन में, एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां उन समस्त सदस्यों को प्रेषित की जा चुकी है, जिनके ई—मेल पते 18 जुलाई, 2024 को कम्पनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट(पार्टिसिपेंट्स) के साथ पंजीकृत हैं। ये दस्तावेज कम्पनी की वेबसाइट नामतः www.jtekt.co.in तथा स्टॉक एक्सचेंजेज की वेबसाइट नामत बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com और नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) www.nseinda.com क्रमानुसार पर तथा कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेन्ट्स, केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेउ ("केफिन टेक") की वेबसाइट https://evoting.kfintech.com पर भी उपलब्ध हैं।

कम्पनी सदस्यों को, एजीएम में पारित किए जाने हेतु प्रस्तावित प्रस्तावों पर वोट डालने के उनके अधिकार का प्रयोग करने हेतु इलेक्ट्रॉनिक साधनों (रिमोट ई-वोटिंग) तथा इस्टा-पोल द्वारा वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रही है। कम्पनी ने रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अधिकृत एजेन्सी के रूप में केफिन टेक की सेवाएं अनुबंधित की हैं। सदस्यों से वोट डालने के लिए https://evoting.kfintech.com पर क्लिक करने का अनरोध किया जाता है।

एजीएम में इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा वोट डालने की सुविधा ('इंस्टा-पोल') भी उपलब्ध होगी तथा केवल वे सदस्य एजीएम के दौरान वोट डालने के लिए ग्राह्म होंगे, जो एजीएम में उपस्थित हैं तथा जिनके द्वारा रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से प्रस्तावों पर वोट नहीं डाला गया है और किसी अन्य प्रकार से ऐसा करने हेतु प्रतिबंधित नहीं हैं।

सूचना और अनुदेश, जिनमें ई-वोटिंग के संबंध में यूजर आईडी तथा पासवर्ड का विवरण रूपी जा जिल्हा होता है - बारा भेजे जा चुके हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से प्रापित है, सदस्यों को ई-मेल द्वारा भेजे जा चुके हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के लिए इन्हीं लॉगिंग क्रेडेन्शियल्स का प्रयोग किया जाना चाहिए। 6) एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध व्यवसाय का निष्पादन रिमोट ई-वोटिंग तथा इंस्टा-पोल व

माध्यम से किया जा सकता है। रिमोट ई—वोटिंग का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:

• रिमोट ई—वोटिंग आरंभ होने की तिथि और समय — शनिवार, 10 अगस्त, 2024 (पूर्वा.

• रिमोट ई-वोटिंग समाप्त होने की तिथि और समय - सोमवार, 12 अगस्त, 2024 (अप.

12 अगस्त. 2024 (अप. 5.00 बजे - आईएसटी) के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनमति

 कोई व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों की पंजिका / लाभार्थी स्वामियों की पंजिका में कट-ऑफ तिथि अर्थात ६ अगस्त, 2024 को दर्ज मौजूद होगा, केवल वही रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा प्राप्त करने अथवा एजीएम में भाग लेने तथा इंस्टा-पोल के माध्यम से वोट डालनें का हकदार होगा। शेयरधारक के वोटिंग अधिकार कम्पनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में उनके द्वारा धारित इक्विटी शेयर्स के अनुपात में होंगे।

कोई व्यक्ति, जो बैठक की सूचना के प्रेषण के पश्चात कम्पनी का सदस्य बनता है तथा कट—ऑफ तिथि को शेयरों का धारक है, वह कम्पनी की वेबसाइट तथा केफिन टेक की वेबसाइट पर उपलब्ध एजीएम की सूचना में दी गई विस्तृत प्रक्रिया अपना कर यूजर आईडी

 सदस्यगण, जो बैठक से पहले रिमोट ई—वोटिंग द्वारा अपना वोट डाल चुके हैं, एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं, परंतु अपना वोट दोबारा डालने के हकदार नहीं होंगे।

 शेयरधारक, ई-वोटिंग के संबंध में किसी संदेह की स्थित में अथवा वीसी प्रतिभागिता के लिए किसी तकनीकी सहायता के लिए, केफिन टेक से टोल-फ्री नबर 1-800-3094-001 पर सम्पर्क कर सकते हैं अथवा उनको einward.ris@kfintech.com पर लिख सकते हैं अथव केफिन टेक की वेबसाइट https://evoting.kfintech.com/public/FAQ.aspx पर उपलब्ध एफएक्यू'ज सेक्शन देख सकते हैं। सदस्यगण किसी अतिरिक्त स्पष्टीकरण के लिए श्री राजीव कुमार, केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, से 040–6716 1524 पर सम्पर्क कर सकते

वास्ते जेटेक्ट इंडिया लिमिटेड

सौरभ अग्रवाल ACS: 36163





पंजीकृत कार्यालयः 401–402, लूसा टॉवर, आजादपुर कमर्शियल काम्प्लेक्स, दिल्ली –110033 CIN: L65991DL1996PLC083909 II वेबसाइटः www.insecticidesindia.com टेलीफोन नं: 011-27679700-05 II ई-मेलः investor@insecticidesindia.com

#### 27वीं वार्षिक आम बैठक और रिमोट ई-वोटिंग सूचना की सूचना

इसके द्वारा सुचित किया जाता है कि इंसेक्टिसाइड्स (इंडिया) लिमिटेड (कंपनी) की 27वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) सोमवार, 12 अगस्त, 2024 को अपराह 03.00 बजे (आईएसटी) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो—विजुअल माध्यम (ओएवीएम) के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों और सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (लिस्टिंग विनियम) के सभी लागू प्रावधानों के अनुपालन में, 08 / 04 / 2020 के परिपन्न संख्या 14 / 2020 और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 17 / 2022 दिनांक 13 / 04 / 2020 के साथ पठित, उसके बाद 05 / 05 / 2020 के परिपन्न संख्या 20/2022, 13/01/2021 के परिपन्न संख्या 02/2021, परिपन्न संख्या 02 / 2022 दिनांक 05 / 05 / 2022 और परिपत्र संख्या 10 / 2022 दिनांक 28 / 12 / 2022 और समय—समय पर जारी किए गए अन्य सभी प्रासंगिक परिपत्र (एमसीए परिपत्र) और परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 दिनांक 12/05/2020, परिपत्र CIR /P /2021 / 11 परिपत्र संख्या SEBI / HO / CFD / CMD2 / CIR / P / 2022 / 62 दिनांक 13 मई. 2022 और परिपत्र संख्या EBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/S2023/4 दिनांक 05/01/2023 सेबी द्वारा जारी (सेबी परिपत्र), लेनदेन करने के लिए एजीएम को बुलाने के नोटिस में निर्धारित व्यवसाय के अनपालन में आयोजित की जाएगी।

संबंधित परिपत्रों के अनुपालन में, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2023—2024 के लिए 18 जुलाई, 2024 को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से एजीएम की सूचना, व्याख्यात्मक विवरण और वार्षिक रिपोर्ट के साथ जन सभी सदस्यों को भेज दी है जिनके नाम जस तिथि तक सदस्यों के रजिस्टर में हैं और जिनके ईमेल पते कंपनी / रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) के पास पंजीकृत हैं। वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.insecticidesindia.com और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट यानी बीएसई लिमिटेड की <u>www.bseindia.com</u> और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की www.nseindia.com और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) की www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है। सदस्य केवल वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से आगामी एजीएम में भाग ले सकते हैं। अधिनियम की धारा 103 के अंतर्गत गणपर्ति के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की गणना की

### रिमोट ई—वोटिंग

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन नियम, 2014 के नियम 20 और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 (एलओडीआर) के विनियम 44 के साथ किसी भी संशोधन और संशोधन सहित, यदि कोई हो, कंपनी ने अपने सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सुविधा की सेवाएँ प्रदान की हैं।

## सदस्य कृपया कंपनी द्वारा प्राप्त रिमोट ए—वोटिंग सेवाओं के संबंध में नीचे दिए गए नोट करें— (i) एजीएम की सूचना में निर्धारित सामान्य और विशेष व्यवसाय रिमोट ए—वोटिंग के माध्य

संचालित किया जा सकता है, जो गुरुवार, 08 अगस्त, 2024 (सुबह 09:00 बजे) से शुरू होगा और रविवार, 11 अगस्त, 2024 (शाम 05:00 बजे) (दोनों दिन सॉम्मिलित) को समाप्त होगा। केवल वही व्यक्ति जिसका नाम 05 अगस्त, 2024 की कट—ऑफ तिथि को सदस्यों / लामार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है, वह रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा के साथ-साथ एजीएम में इलेक्टॉनिक रूप से मतदान करने का हकदार होगा।

(iii) कोई व्यक्ति जिसने एजीएम की सूचना इलेक्ट्रॉनिक रूप में भेजे जाने के बाद लेकिन 05 अगस्त, 2024 की कट—ऑफ तिथि से पहले शेयर खरीदे हैं और कंपनी का सदस्य बन गया है, वह <u>helpdesk.evoting@cdslindia.com</u> पर अनुरोध भेजकर अपना यूजर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालांकि, यदि व्यक्ति रिमोट ए–वोटिंग के लिए सीडीएसएल के साथ पहले से ही पंजीकृत है, तो मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का

उपयोग वोट डालने के लिए किया जा सकता है। सीडीएसएल द्वारा 11 अगस्त, 2024 को शाम 05:00 बजे के बाद रिमोट ए-वोटिंग को निष्क्रिय कर दिया जाएगा और उक्त तिथि और समय के बाद मतदान की अनुमति नहीं दी जाएगी।

27वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर वार्षिक आम बैठक में ई-वोटिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। सीडीएसएल की ई-वोटिंग प्रणाली के . माध्यम से वोट डॉलने की प्रक्रिया वार्षिक आम बैठक की सूचना में वर्णित की गई है।

वे सदस्य जो वीसी / ओएवीएम सुविधा के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में भाग ले रहे हैं और जिन्होंने रिमोट ए-वोटिंग के माध्यम से प्रस्तावों पर अपना वोट नहीं डाला है, वे वार्षिक आम बैठक के दौरान ई—वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोट देने के पात्र होंगे।

(vii) कोई सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डालने के बाद वार्षिक आम बैठक में भाग ले सकता है. लेकिन उसे वार्षिक आम बैठक में दोबारा वोट देने की अनमति नहीं होगी। (viii) सदस्यों के निरीक्षण के लिए आवश्यक दस्तावेज वार्षिक आम बैठक के दौरान बिना किसी

शुल्क के निरीक्षण के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध कराए जाएंगे। (ix) एजीएम में भाग लेने और रिमोट ई-वोटिंग से संबंधित विवरण के लिए, कृपया एजीएम की सूचना देखें, एजीएम में भाग लेने और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ई–वोटिंग के बारे में किसी भी प्रश्न के मामले में, कृपया www.evotingindia.com पर उपलब्ध सहायता अनुमाग के अंतर्गत अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ) और ई–वोटिंग मैनुअल देखें या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ई-मेल लिखें या श्री राकेश दलवी, सीनियर मैनेजर, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल), ए विंग, 25वीं मंजिल, मैराथन पयूचरएक्स, मफतलाल मिल कंपाउंड्स, एन एम जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुंबई — 400013 से संपर्क करें या सीडीएसएल के टोल—फ्री नंबर 180021 09911 पर कॉल करें।

कृते इन्सेक्टिसाइड्स (इंडिया) लिमिटेड संदीप कुमार कंपनी सचिव और सीसीओ

दिनांकः 18 जुलाई, 2024 स्थानः दिल्ली

# उत्पादन ने बढ़ाई तटस्थ दर!

मनोजित साहा मुंबई, 18 जुलाई

रतीय रिजर्व बैंक के एक अध्ययन में अनुमान लगाया गया है कि वित्त वर्ष 2023-24 की जनवरी-मार्च तिमाही के दौरान भारत में ब्याज की तटस्थ दर 1.4 से 1.9 प्रतिशत के बीच रही है। यह 2021-22 की अक्टबर-दिसंबर तिमाही के लिए इसके पहले के 0.8 से 1.0 प्रतिशत के अनुमान की तुलना में तेज बढ़ोतरी है। इससे रिजर्व बैंक द्वारा रीपो रेट में कटौती करने को लेकर बहस छिड़ गई है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि महामारी के बाद भारत के लिए ब्याज की तटस्थ दर में ताजा बढ़ोतरी की वजह उत्पादन में वृद्धि की संभावना है। इक्रा में मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर ने कहा, 'महामारी के बाद से कुल मिलाकर जीडीपी वृद्धि दर उच्च स्तर की ओर रही है। ऐसे में तटस्थ दर का अनुमान उचित



इसकी वजह से मौद्रिक नीति का रुख तय करने में आकलन के सावधानी पर्वक व्याख्या की जरूरत है। यह रिपोर्ट रिजर्व बैंक के आर्थिक और नीतिगत शोध विभाग (डीईपीआर) के हरेंद्र कुमार बेहरा द्वारा लिखी गई है। यह स्पष्ट किया गया है कि इस लेख में व्यक्त किए गए विचार लेखक के हैं, रिजर्व बैंक के नहीं। बेहरा ने कहा है कि

जनसांख्यिकीय स्थिति को देखते हुए भारत के लिए तटस्थ दर का अनुमान लगाना चुनौतीपुर्ण है। रिपोर्ट में कहा गया है, 'खासकर

रिजर्व बैंक की रिपोर्ट

प्रतिशत के बीच रही

■ वित्त वर्ष 2023-24 की जनवरी-मार्च तिमाही के

दौरान भारत में ब्याज की तटस्थ दर 1.4 से 1.9

■ यह 2021-22 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के

अर्थशास्त्री वास्तविक ब्याज दर की गणना रीपो

इस समय रीपो रेट 6.5 प्रतिशत है, जबिक चौथी

तिमाही में औसत महंगाई 4.5 प्रतिशत अनुमानित

लिए इसके पहले के 0.8 से 1.0 प्रतिशत के

रेट में से महंगाई दर को घटाकर करते हैं

अनुमान की तुलना में तेज बढ़ोतरी

महामारी की जटिलताओं के कारण उत्पादन का अनुमान बदला है और इससे महंगाई दर की गतिशीलता पर

## आरबीआई 4.22 अरब डॉलर का शुद्ध खरीदार

मुंबई, 18 जुलाई

भारतीय रिजर्व बैंक ने मई में 4.22 अरब डॉलर की कुल शुद्ध विदेशी मुद्रा खरीदी थी। आरबीआई के मासिक बुलेटिन के अनुसार केंद्रीय बैंक ने मई में 23.64 अरब डॉलर की खरीदारी की थी जबकि 19.42 अरब डॉलर की विदेशी मुद्रा की बिक्री थी।

अंजलि कुमारी

अपरिवर्तित रही। हेडलाइन मुद्रास्फीति 4 फीसदी के लक्ष्य के मुकाबले 5 फीसदी के करीब रही। ताजा आंकड़ों में मुख्य मुद्रास्फीति के ऐतिहासिक निचले स्तर पर रहने और ईंधन कीमतों में लगातार गिरावट के बावजूद ऐसा

रिजर्व बैंक ने अप्रैल में 3.64 अरब डॉलर की शुद्ध बिक्री की थी। केंद्रीय बैंक की मई के अंत तक शुद्ध ब्राह्म अग्रिम बिक्री 10.36 अरब डॉलर थी जबकि यह अप्रैल में 10.36 अरब डॉलर थी। मई में अग्रिम सौदे के अलावा विदेशी मुद्रा भंडार 651

रिपोर्ट में कहा गया है कि खाद्य मूल्य स्पष्ट तौर पर हेडलाइन मुद्रास्फीति के व्यवहार और महंगाई के प्रति पारिवारिक अपेक्षाओं पर हावी हो रहे हैं। खाद्य मूल्य में तेजी से मजदूरी, किराए एवं अन्य अपेक्षाएं प्रभावित हो सकती हैं। रिपोर्ट में कहा गया है, 'आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने मुद्रास्फीति को लक्ष्य के अन्रूप बनाए रखने की प्रतिबद्धता जताई है। जब तक यह लक्ष्य हासिल नहीं हो जाता, मुद्रास्फीति के आंकड़ों में आई हालिया गिरावट को कार्य प्रगति पर माना जाना चाहिए।'इसमें आगाह किया गया है कि अगर मौद्रिक नीति के तहत वृद्धि को रफ्तार देने के अल्पकालिक फायदे पर ध्यान दिया जाता है तो वह अपनी

इसके अलावा वह मुद्रास्फीति की उम्मीदों को प्रभावित करते हुए मुद्रास्फीति में तेजी ला सकती है।

विश्वसनीयता खो सकती है।

## विदेश भेजे जानी वाली धन राशि घटी

अर्थशास्त्री वास्तविक ब्याज दर

की गणना रीपो रेट में से एक साल

आगे की महंगाई दर को घटाकर

करते हैं। इस समय रीपो रेट 6.5

प्रतिशत है, जबकि चौथी तिमाही में

औसत महंगाई 4.5 प्रतिशत

अनुमानित है। रिजर्व बैंक के

अध्ययन में साफ किया गया है कि

तटस्थ या प्राकृतिक दर का अनमान

आतिरा वारियर मुंबई, 18 जुलाई

रिजर्व भारतीय (आरबीआई) की उदारीकृत धन प्रेषण योजना (एलआरएस) में मई 2024 में बीते साल की इस अवधि की तुलना में करीब 16 प्रतिशत की दौरान गिरावट आई। केंद्र सरकार ने विदेश भेजे जाने वाले धन पर स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) बढ़ा दिया था। इससे आधार प्रभाव प्रभावित

वित्त वर्ष 2022-23 के केंद्रीय बजट में शिक्षा और इलाज के अलावा विदेश भेजे जाने वाले सभी तरह के धन सात लाख रुपये से अधिक होने की स्थिति में टीसीएस

पांच प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया था। यह संशोधन 1 जुलाई 2023 से प्रभावी था।

बजट के इस प्रस्ताव के कारण मई 2023 में सालाना आधार से 41 प्रतिशत का इजाफा हुआ था। इस क्रम में मई 2023 में 2.88 अरब डॉलर विदेश भेजा गया था। हालांकि इसके बाद वित्त मंत्रालय ने 1 अक्टूबर, 2023 तक लंबित कर दिया था। आरबीआई के नवीनतम

बुलेटिन के अनुसार इस योजना में मई 2024 में 2.42 अरब डॉलर विदेश भेजा गया और यह बीते साल की तुलना में 16.18 प्रतिशत कम था। इस माह के दौरान विदेश भेजे जाने वाले धन के सबसे बड़े हिस्से अंतरराष्ट्रीय यात्रा में भेजे जाने वाली राशि मामूली रूप से गिरकर 1.40 अरब डॉलर हो गई जबकि बीते साल की इस अवधि में इस 1.49 अरब डॉलर भेजे गए थे।

हालांकि अन्य प्रमुख हिस्सों जैसे करीबी रिश्तेदारों को भेजे जाने वाली मद की राशि 34.63 प्रतिशत गिरकर 32.08 करोड़ डॉलर हो गई जबिक यह मई 2023 में 49.09 डॉलर थी।

हालांकि 'उपहार' में 30.4 प्रतिशत गिरकर 27.19 करोड़ डॉलर हो गई। इस क्रम में विदेशों में शिक्षा के लिए भेजे जाने वाला धन सालाना आधार पर 14.7 प्रतिशत गिरकर 21.09 करोड

# प्रवासियों ने जमा किए करीब 3 अरब डॉलर

बीएस संवाददाता मुंबई, 18 जुलाई

वित्त वर्ष 2025 के अप्रैल-मई महीने में प्रवासी (एनआरआई) जमा योजनाओं में विदेश में रह रहे भारतीयों ने 3 अरब डॉलर के करीब जमा किया है। यह राशि पिछले साल की समान अवधि में इन योजनाओं में जमा की गई राशि के चार गुने से भी अधिक है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गुरुवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2025 में अप्रैल-मई के दौरान एनआरआई योजनाओं में आवक 2.72 अरब डॉलर रही है, जबकि

62.3 करोड़ डॉलर जमा हुआ था। इसके साथ ही मई तक कुल एनआरआई जमा 154.72 अरब डॉलर हो गया है। मई महीने में विभिन्न एनआरआई योजनाओं में 1.7 अरब डॉलर आए हैं, जबकि अप्रैल में 1.07 अरब डॉलर जमा किए गए थे। एनआरआई जमा योजनाओं में फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट (एफसीएनआर) डिपॉजिट, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल (एनआरई) डिपॉजिट और नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी डिपॉजिट शामिल है।

पिछले साल की समान अवधि में

रिजर्व बैंक की रिपोर्ट माह के अंत तक ढंग से बेचने में मदद मिल सकती बोलीकर्ता विदेशी है।' केंद्र को उम्मीद है कि भारतीय रिजर्व बैंक इस माह के अंत तक है। इस बैंक की बहुलांश हिस्सेदारी के संभावित को खरीदने के लिए कम से कम चार संभावित बोलीकर्ताओं ने शुरुआती

आईडीबीआई बोलीकर्ता के बारे में फिट ऐंड प्रॉपर यानी सही और उचित होने की रिपोर्ट दे देगा। अधिकारियों ने बताया कि केंद्रीय बैंक जांच-पड़ताल करने की प्रक्रिया के अंतिम चरण में है। इस रिपोर्ट की बदौलत आईडीबीआई बैंक के ज्यादातर हिस्से को त्वरित निविदाएं पेश की हैं।

अधिकारी ने बिज़नेस स्टैंडर्ड को बताया, 'एक को छोड़कर सभी संभावित बोलीदाता आरबीआई के सही व उचित मानदंडों को पुरा कर रहे हैं। मानदंड पूरा नहीं करने वाला

अधिकारी ने संकेत किया, 'महत्त्वपूर्ण क्षेत्र होने के कारण आरबीआई का आकलन आमतौर से अधिक दीर्घावधि का होना तय था। आमतौर पर प्रक्रिया को पूरा होने में 12 - 18 महीने का समय लगता है।' इस बैंक के विनिवेश की राह में केंद्रीय बैंक की मंजुरी पहला मील का पत्थर साबित होगी। बीएस

#### गिरावट के नए स्तर पर रुपया आईडीबीआई में हिस्सेदारी की बिक्री पर रिजर्व बैंक ने इससे 6 मुद्राओं के बॉस्केट में अंजलि कुमारी

मुंबई, 18 जुलाई

डॉलर के मुकाबले रुपया गिरकर बंदी के नए निचले स्तर 83.66 रुपये प्रति डॉलर पर पहुंच गया। डीलरों ने गुरुवार को हुई इस गिरावट की वजह डॉलर सूचकांक की मजबूती और कच्चे तेल की कीमत में बढ़ोतरी बताई है।

रुपया इसके पहले 20 जुन को एक दिन के रिकॉर्ड निचले स्तर 83.67 रुपये प्रति डॉलर पर पहुंचा था।इसके पहले का बंदी का निचला स्तर भी उसी दिन का 83.65 रुपये प्रति डॉलर का है। मंगलवार को रुपया 83.58 प्रति डॉलर पर पर बंद हुआ था। मुद्रा बाजार बुधवार को मुहर्रम की वजह से बंद था।

एलकेपी सिक्योरिटीज में कमोडिटी और करेंसी के वीपी रिसर्च एनॉलिस्ट जतिन त्रिवेदी ने कहा, 'अस्थिरता और वैश्विक बाजार में अनिश्चितताओं के कारण रुपया 8 पैसे कमजोर होकर 83.66 रुपये प्रति डॉलर पर आ गया। भारत के बाजारों में कुल मिलाकर सकारात्मक धारणा के बावजूद अमेरिका और चीन के व्यापार में अनिश्चितता के कारण रुपया कमजोर हुआ है।ट्रंप के फिर से चुनकर सत्ता में आने की संभावना के बीच इसमें फिर

# किया हस्तक्षेप

■ 6 मुद्राओं के सूचकांक में डॉलर मजबूत होने और कच्चे तेल की कीमत बढ़ने के कारण रुपये में गिरावट

 गुरुवार को रुपया बंदी के नए निचले स्तर 83.66 रुपये प्रति डॉलर पर पहुंच गया, जबकि इसके पहले 20 जून को सबसे कम 83.65 रुपये प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ था

 कच्चे तेल की कीमत में बढ़ोतरी की वजह से आयातक डॉलर खरीद रहे हैं, अगला पड़ाव 83.72 रुपये प्रति डॉलर का हो सकता है

बढ़ोतरी हो सकती है। बहरहाल रिजर्व बैंक के मानकों और हस्तक्षेपों के कारण रुपया स्थिर बना हुआ है। अभी सबकी नजरें केंद्रीय बजट पर टिकी हुई हैं। व्यय और आय के आंकड़ों से रुपये में एक बार फिर उतार चढ़ाव की संभावना जताई जा रही है।'

डॉलर सूचकांक 0.09 प्रतिशत बढ़कर 103.83 पर कारोबार कर


डॉलर की मजबूती का पता चलता है। एक बड़े सरकारी बैंक से जुड़े डीलर ने कहा, 'कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से आयातक डॉलर खरीद रहे थे। अगला पड़ाव 83.72 रुपये प्रति डॉलर का हो सकता है।'

बाजार से जुड़े हिस्सेदारों ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक ने डॉलर की बिकवाली करके विदेशी मद्रा बाजार में हस्तक्षेप किया, इसकी वजह से रुपये में और गिरावट को रोका जा सका। फिनरेक्स ट्रेजरी एडवाइजर्स

एलएलपी के कार्यकारी निदेशक और कोषागार के प्रमुख अनिल कुमार भंसाली ने कहा, 'डॉलर और रुपये के कारोबार में करीब रोज ही तेल कंपनियों की ओर से या सरकार के ऋण भुगतान या रक्षा या एफपीआई की ओर से मांग आ रही है। आज रक्षा सौदा प्रमुख था, जिसकी वजह से तेजी आई।

रिजर्व बैंक ने 83.60 रुपये प्रति डॉलर पर हस्तक्षेप किया और बाद में 83.66 रुपये प्रति डॉलर पर हस्तक्षेप किया। करीब 50 करोड़ का हस्तक्षेप हुआ, लेकिन यह पर्याप्त नहीं था।'चालू वित्त वर्ष के दौरान रुपये में 0.3 प्रतिशत की गिरावट हुई है। वहीं चालू कैलेंडर वर्ष के दौरान 0.5 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है।

# बीएस सूडोकू 5029



#### परिणाम संख्या 5028 2 | 6 | 9 | 3 | 7 | 4 | 5 | 1 | 8 3 1 8 2 5 6 4 7 9

5 4 7 1 9 8 3 6 2 4 7 5 6 8 9 2 3 1 6 9 2 5 1 3 7 8 4 1 8 3 7 4 2 6 9 5 8 3 4 9 6 5 1 2 7 9 2 1 4 3 7 8 5 6 7 5 6 8 2 1 9 4 3 मध्यम

कैसे खेलें? हर रो, कॉलम और 3 के बाई 3 के बॉक्स में 1 से लेकर 9 तक की

पंजाब

संख्या भरें।

**★★★☆☆** 

## राजकोषीय घाटे का लक्ष्य हो कम

रुचिका चित्रवंशी नई दिल्ली, 18 जुलाई

सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक के 2.11 लाख करोड़ रुपये लाभांश से मिली राजकोषीय गुंजाइश का इस्तेमाल सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं में व्यय बढ़ाने में करने की जरूरत है। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की) ने गुरुवार को जारी इकनॉमिक आउटलुक सर्वे में कहा है कि सरकार को इसका इस्तेमाल खासकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समर्थन देने में करना चाहिए।

राष्ट्रीय राजधानी के सराफा बाजार में गुरुवार को सोना 700 रुपये की बढ़त के साथ 76,400 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। इससे पिछले कारोबारी सत्र में सोना 75,700 किलोग्राम से 400 रुपये घटकर 94,000 रुपये प्रति किलोग्राम रह गई। विदेशी बाजार, कॉमेक्स में सोना 6.90 डॉलर प्रति औंस की तेजी के साथ 2,466.80 डॉलर प्रति औंस पर

गेहूं दड़ा 2540/2550 गेहूं शरबती 3600/3700, चावल शरबती सेला 4400

/4500, स्टीम 5200/5300, लालमती 5400/ 5500, चावल (सोना) 4500 /4550, दाल अरहर सवा नं. 14500 /14600, पटका 15800/16000, रिजैक्शन 13400/13600, चना दाल 8150/8350,

चना देशी छना ७७००/८०००, चना चापा छना 8200/8300, एग्रो प्योर बेसन 3280, मटर देशी 5400/5600, उड़द साबुत (काला) 10200/11200, दाल उड़द (काली) 10400/12000, उड़द धोया 10000/ 11000, मसूर छोटी 6500/6800, मलका 7700/7800, किरानाः जीरा 29500 /38500, लालिमर्च गुंटूर 23500/29500, हल्दी निजाम फली (50 किलो) 9000 /9500, धनिया एमपी 8300/12500, छोटी इलायची (किलो) 2300/2950, बड़ी इलायची 1520/1530, कालीमिर्च (किलो) 720/770, सुपारी (किलो) 460/510, सौंफ मोटी 14000/17000,

दिल्ली

गेहूं 2550/2560 जौ 2150/2175, चावल मसूरी 3200/3300, चावल मोटा 3000/ 3200, देशी चना 7150/7200, चना छना 7800/7900, दाल चना 8100/8300, देशी मटर 4900/5 100, पिचकी 3500/3700, मटर दाल 5300/5400, अरहर लेमन 11400/11410, दाल अरहर 15600

/16000, स्पेशल 14300/14600,उड़द एसक्यू 9900/9950, एफएक्यू 9400/ 9425 राजमा चित्रा 11200/14700, मूंग 7000/7800, मसूर छोटी 6600/6700, छांटी ७७००/७८००, सरसों ५५५०/५६०० तिल सफेद 15000/15200, सोया (टीन) 1700/1800, तेल सरसों कच्ची घानी वैट पेड (टीन)1950/2050, सरसों खल 2700/ 2850, पामोलिन 1850/1950, वनस्पति घी (यूपीएफओआर) 1700/1750, मधुसूदन देशीं घी 8250, वासुदेव 7800, परम प्रीमियम 8200, पदम श्री 8200, लीलाधर 8150, अलसी 6300/6400, धनियाः लोकल 8400/8500, राजस्थान 8700/9200, बढ़िया 10100/12800, हल्दी 16000/ 18000, जीरा 3 1000/38500, अजवायन 17500/21000, मेथी 7000/ 7700, मखाना 1100/1500, कालीमिर्च (किलो) 720/760, लालिमर्च (किलो) तेजा 235/300, (334) न. 220/245, सुपारी (किलो) केरल 460/480, कर्नाटक चिकनी 485/505, गोला 13000/15000

उत्तर प्रदेश

9500/10000, मोटा 10500/11000, उड़द मोगर 10500/11000, मोटा 11000 /11500, चौला मोगर 8000/8100, मोठ मोगर 8500/8600, मूंग दाल छिलका देशी 9200/10300, मलका 7500/7600, अरहर 15000/16500, मटर दाल 5000/ 5100, चना दाल मीडियम 7900/8000, बोल्ड 8000/8100, दलहनः उड़द साबुत देशी 9000/9400, मटर सफेद 4900/ 5000, मोठ साबुत 6500/6600, काबली चना 8500/11000, चना (डिली.) 7100/ 7150, मूंग 7400/7600, राजमा शर्मिली 12000/13000, राजमां चित्रा 10500/ 12300, किरानाः हल्दी निजामाबाद 17200/ 17500, सांगली 17000/17500, हल्दी राजापुरी 21000/24500, लालिमर्च 17000/ 27500, कालीमिर्च (किलो) 750/850, धनिया 8500/11500, जीरा 33000/41500, अजवायन 18000/ 31000, सौंफ 14000/25500, मेथी

दाल (जीएसटी अतिरिक्त): मूंग मोगर

राजस्थान

6800/7000, मेथी मशीन क्लीन 7200/7400, इमली 4600/4700, गोला टिपटूर 10500/12500, अनाजः चावल गेहूं (मिल) डीबी 7200/7300, 2565/2570, मक्की 2600/2625, बाजरा 2525/2550, ज्वार कैटलफीड 2600/ 2700, ज्वार बेस्ट क्वालिटी 3100/3200, तेल-तिलहनः सरसों(मिल पहुंच) 6075 /6100, सरसों एक्सपेलर निवाई 11700, कोल्हू कच्ची घानी टोंक &, राइसब्रान डिऑयल्ड कंटीन्यूअस 1400,

जीएसटी अतिरिक्त (प्रति क्विं.)ः राइसब्रान (खाद्य)(प्रति प्वाइंट)160, राइसब्रान (अखाद्य) 155, खल सरसों 2700, डीओसीः राइसब्रान बैच सफेद 1430, लाल &, कंटीन्यूअस 1450, सरसों (टन) 22500, सूरजमुखी (टन) 21000, अनाजः गेहूं 2500/2550, आटा (50 किलो) 1420, मैदा 1470, चोकर (45 किग्रा) 1050, चोकर (30 किग्रा) 680, मक्की बिहार नई 2675/2725 भाषा/एनएनएस

## क्षेत्रीय मंडियों के भाव

रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। चांदी की कीमत पिछले सत्र के 94,400 रुपये प्रति कारोबार कर रहा था। न्यूयॉर्क में चांदी भी मामूली बढ़त के साथ 30.66 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई।